

## प्रेस नोट

### एसओजी व थाना सिरसागंज पुलिस टीम द्वारा मर्डर की सुपारी देने वाले तीन अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में वाँछित अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सिरसागंज के कुशल नेतृत्व में दिनांक 31.08.2020 को एसओजी प्रभारी व प्रभारी निरीक्षक सिरसागंज मय पुलिस बल द्वारा मर्डर की सुपारी देने वाले तीन अभियुक्तगण 1-विवेक उपाध्याय पुत्र श्री विनोद उपाध्याय नि० वामई थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद ।, 2-अर्पित उपाध्याय पुत्र श्री गणेश उपाध्याय नि० वामई थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद ।, 3-सुदामा पुत्र विनोद कुमार नि० मौ० धोकल कस्बा व थाना नारखी जिला फिरोजाबाद। को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण द्वार 3-4 दिन पूर्व विमल उपाध्याय पुत्र स्व० श्री प्रमोद उपाध्याय निवासी वामई थाना सिरसागंज (फिरो०) व उसके भाई को मारने की सुपारी 02 लाख रूपये में देने के सम्बन्ध में एक वीडियो व्हाटसएप व फेसबुक पर वायरल हुआ था वायरल वीडियो व वादी की तहरीर पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना सिरसागंज पर मु०अ०सं० 637/20 धारा 384/115 भादवि पंजीकृत कर मर्डर की सुपारी देने वाले तीनों अभियुक्तों के गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

#### नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1-विवेक उपाध्याय पुत्र श्री विनोद उपाध्याय नि० वामई थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद ।,
- 2-अर्पित उपाध्याय पुत्र श्री गणेश उपाध्याय नि० वामई थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद ।,
- 3-सुदामा पुत्र विनोद कुमार नि० मौ० धोकल कस्बा व थाना नारखी जिला फिरोजाबाद ।

#### गिरफ्तार करने वाले अधिकारी/कर्म०गणों के नाम--

1. प्रभारी निरीक्षक श्री गिरीशचन्द्र गौतम थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद ।
2. उ०नि० श्री कुलदीप सिंह एसओजी प्रभारी मय एसओजी टीम जिला फिरोजाबाद ।
3. उ०नि० श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद
4. है०का० 275 ओमप्रकाश थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद ।
5. का० 692 सुनील कुमार थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद
6. कां० 865 दीपक कुमार थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद